

BAPS Shri Swaminarayan Mandir LONDON



निःशुल्क प्रवेश

लंदन का सीमाचिह्न


नेशनल ज्याग्रफी



यूरोप के सर्वप्रथम परम्परागत हिंदू मंदिर में आपका स्वागतम्

लंदन शहर के हृदयस्थल पर स्थित बी.ए.पी.एस. श्री स्वामिनारायण मंदिर (निस्डन मंदिर) अद्भूत कलाकृति एवं शिल्पयुक्त परंपरागत स्थापत्य से निर्मित हिंदू मंदिर है। ५००० टन इटालियन एवं भारतीय संगेमरमर तथा सर्वोत्तम बलगेरियन पत्थरों को सिर्फ़ ढाई वर्ष की समयावधि में भारतीय शिल्पियों ने अपने हाथों से तराशकर लंदन पहुँचाया, फलस्वरूप एक अद्वितीय मंदिर का निर्माण हुआ।

ई.स. १९९५ में उद्घाटित यह मंदिर प्रतिवर्ष पाँच लाख से भी अधिक भाविकों को लुभाकर भक्ति, उपासना एवं प्रार्थना का केंद्र बन चुका है। आइए और देखिए यहाँ की बेहतरीन नक्काशी का सौंदर्य, और अनुभव कीजिए यहाँ की प्रार्थनासभा में मन की शांति का ! निस्संदेह विश्व की प्राचीनतम जीवंत हिंदू संस्कृति का दर्शन आपको अवश्य अभिभूत कर देगा।



प्रेरक: प.पू. प्रकट ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज

बी.ए.पी.एस. स्वामिनारायण संस्था के वर्तमान प्रमुख प.पू. प्रमुखस्वामी महाराज भगवान श्री स्वामिनारायण के पाँचवें आध्यात्मिक अनुगामी हैं। उनकी दीर्घदृष्टि, प्रेरणा एवं प्रचंड पुरुषार्थ का ही परिणाम है – यह मंदिर। भगवान श्री स्वामिनारायण के प्रति उनके द्वारा अर्पण किया गया यह भक्तिअर्घ्य है।



लंदन के सात
आश्चर्यों में
एक

Time Out City Guides

विश्व के सर्वाधिक
आश्चर्यकारी स्थलों
में एक

The World of Interiors



भव्य हवेली

प्रवेश करते समय प्रथम हवेली दृष्टिगोचर होती है। यहाँ की भव्यता मनोमस्तिष्क पर छा जाती है। आँक एवं साग के काष्ठ के स्तंभों, मेहराबों पर तराशी हुई महीन नक्काशी आश्चर्यकारी है। प्रथम क्षण में ही आपको लगेगा - मानों काष्ठ के मोर नर्तन कर रहे हैं, हाथी सूँढ उठाकर स्वागत कर रहे हैं, और कमलों पर भौर गुंजार कर रहे हैं! और हाँ, फर्श पर बिछाए गए रंगबेरंगी गलीचों की सुंदरता देख आपके कदम अवश्य ठिठक जाएँगे।

यहाँ उपयोग में लिए गए काष्ठ के लिए जहाँ एक वृक्ष कटा है तो उसके बदले में दस पौधे बोए गए हैं।

प्रदर्शन

“Understanding Hinduism” प्रदर्शन को आवालवृद्ध सभी सहलानियों ने सराहा है। यहाँ विश्व की प्राचीनतम जीवंत हिंदू संस्कृति के नैतिक मूल्यों, बुद्धिमत्ता एवं मान्यताओं का हृवह दर्शन होता है। ११ मिनटों का विडियो शॉ हमें इस मंदिर की रचना का इतिहास एवं इसके निर्माण के पीछे स्थित उदात्त भावना की जानकारी देता है।



गर्भगृह – मुख्य मंदिर

पहली मंजिल पर मुख्य मंदिर है। भव्यता के साथ यहाँ दिव्यता का सुयोग है। छतों, स्तंभों एवं दीवारों पर तराशी गई नक्काशी इतनी महीन, मानों पत्थर पर नहीं अपितु मोम पर की गई हो। गुम्बद का नजारा आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। सुवर्णमंडित सात सिंहासनों में भगवान की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई हैं। जिनका दर्शन करने पर हाथ अनायास ही प्रार्थना के लिए जुड़ जाते हैं और मन अकथ्य शांति अनुभव करता है।


मंदिर क्या है?

मंदिर प्रार्थना का एक अनूठा स्थान है। संस्कृत भाषा में मंदिर अर्थात् ऐसा स्थान जहाँ मन स्थिर हो, आत्मा को ऐसा अवकाश मिले कि जीवन के अर्थ एवं मर्म को समझकर धन्य हो सके! मंदिर एक ऐसा केंद्रस्थान है – जहाँ लोग भगवान एवं समाज की सेवा के लिए एकत्र हो सकें।



हवेली प्रार्थना हॉल

२,७५० वर्ग मीटर में फैला यह स्तंभरहित सभामंडप एकसाथ २५०० भाविकों को समाविष्ट कर सकता है। यहाँ साप्ताहिक सत्संग समारोह एवं उत्सव समारोह आयोजित किए जाते हैं। लाइटिंग सिस्टम बिजली की महत्तम बचत को ध्यान में रखकर लगाई गई है। पर्यावरण हानि के निवारण हेतु सभामंडप में मानवसमूह द्वारा विसर्जित थर्मल ऊर्जा का उपयोग हीट एक्सचेंजर द्वारा हवेली के अन्य भागों को गरमी पहुंचाने में किया जाता है।



मूर्ति क्या है?

वैदिकमंत्रों एवं विधिविधानों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान का अर्चा स्वरूप है। मूर्ति पत्थर नहीं अपितु साक्षात् भगवान हैं – इस परमभाव से यहाँ मूर्तियों की सेवा-पूजा-भक्ति अत्यंत प्रेमपूर्वक की जाती है। मूर्ति मंदिर की आत्मा है, और मंदिर भगवान का घर।



बुकस्टॉल

बुकस्टॉल में आप पाएँगे—विविध पुस्तकें, पोस्टकार्ड, CD, DVD, आयुर्वेदिक दवाएँ, आपके परिवारजनों के लिए मनपसंद भेंट-उपहार, जो आपकी मंदिरदर्शनयात्रा मुलाकात को अविस्मरणीय बना देंगे। अतः बुकस्टॉल की मुलाकात अवश्य लीजिए।

शायोना रेस्टोरन्ट एवं विक्रय केंद्र












यहाँ के शाकाहारी रेस्टॉरन्ट में आप स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। परंपरागत भारतीय सजावट के बीच बैठकर भारतीय व्यंजनों की दावत आपको भारत में होने का माहौल महसूस कराती है। समीपस्थ विक्रय केंद्र से आप भारतीय व्यंजन, बर्तन एवं नास्ता खरीदकर ले जा सकते हैं।



बी.ए.पी.एस. स्वामिनारायण मंदिर, निस्डन, लंदन


मंदिर प्रत्येक भाविकजन के लिए खुला है, प्रवेश निःशुल्क है।

दर्शनार्थियों के लिए सूचनाएँ

-  पहनावा: घुटने से नीचे तक का पहनावा जरूरी है, इससे कम लंबाई के पहनावे पर प्रतिबंध है।
 -  धूम्रपान व शराब: मंदिर परिसर में पूर्ण निषेध है।
 -  विडियो एवं फोटोग्राफी: निजी उपयोग के लिए आप हवेली एवं मंदिर के बाहरी हिस्सों की फोटोग्राफी व विडियो ले सकते हैं।
 -  मोबाईल फोन: कृपया मंदिर परिसर में स्विच ऑफ रखें।
 -  पार्किंग: निःशुल्क
 -  पाठशाला एवं ग्रुप मुलाकात: पूर्व जानकारी एवं बुकिंग आवश्यक है। कृपया बुकिंग हेतु booking@londonmandir.baps.org का संपर्क करें।
 -  आहार एवं पेय: मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार के खाद्य व पेय पदार्थों एवं च्युइंगम पर प्रतिबंध है।
 -  प्रदर्शन एवं विडियो शॉ: वयस्कों के लिए २ पाउन्ड एवं बच्चों (६ से १६ साल) के लिए १.५ पाउन्ड शुल्क रखा गया है। पाठशालाओं एवं ग्रुप मुलाकात के लिए इन दरों में रियायत वरती गई है, कृपया booking@londonmandir.baps.org का संपर्क करें।
 -  अन्य सुविधाएँ: ओडियो निदर्शित यात्रा, लिफ्ट, व्हीलचेर, छोटे बच्चों के कपड़े बदलने के लिए सुविधा।
 -  जानकारी: प्रवेश, समय एवं सुविधाओं में पूर्व सूचना के बिना बदलाव आ सकता है।
 -  समय: प्रतिदिन सुबह ९ से सायं ६ बजे
भगवान के दर्शन: प्रतिदिन सुबह ९ से १२, सायं ४ से ६
मध्याह्न आरती: प्रतिदिन दोपहर ११.४५ बजे
- मंदिर की संतोषपूर्ण मुलाकात के लिए पर्याप्त समयावधि: २ घंटे

मंदिर तक कैसे पहुंचें

- ✳ West End तकरीबन ३० मिनट | A406 पर "Neasden Temple" का साइनपोस्ट लगाया गया है।
- ✳ Overground/Bakerloo लाइन से Stonebridge Park एवं वहाँ से 112 नं. बस द्वारा
- ✳ Overground/Bakerloo लाइन से Harlesden एवं वहाँ से 206 या 224 नं. बस द्वारा
- ✳ Metropolitan/Jubilee लाइन से Wembley Park एवं वहाँ से 206 नं. बस द्वारा
- ✳ Jubilee Line से Neasden वहाँ से सिर्फ 20 मिनट में पैदल मंदिर पहुँचा जा सकता है।
- ✳ Baker Street से 18 नं. बस द्वारा
- ✳ Brent Cross एवं Ealing Broadway से 112 नं. बस द्वारा



BAPS Shri Swaminarayan Mandir

105-119 Brentfield Road, Neasden, London NW10 8LD

☎ +44 (0)20 8965 2651 | ✉ info@londonmandir.baps.org

🏠 londonmandir.baps.org | 🐦 @NeasdenTemple | 📷 neasdentemple

© BAPS Swaminarayan Sanstha, UK: Charity No. 1143083 | CLG No. 7315272

